

May 23, 2021

The Secretary,
BSE Limited
Corporate Services Department,
Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street,
Mumbai-400001

Scrip Code: 532529

Asst. Vice President,
National Stock Exchange of India
Listing Department,
"Exchange Plaza", Bandra Kurla Complex,
Bandra (East), Mumbai-400051

Scrip Symbol: NDTV

Subject: Submission of newspaper publication

Dear Sir/Ma'am,

Please find enclosed herewith newspaper publication for Statement of Standalone and Consolidated Financial Results for the quarter and year ended March 31, 2021 published in Hindi & English language on May 22, 2021.

Please take the above information on your record.

Thanking you

Yours sincerely,

For New Delhi Television Limited

(Tannu Sharma) Company Secretary & Compliance Officer

Encl.: as above

Secured solar bids in UP lapse on 'significantly higher' tariffs

FINANCIAL EXPRESS

DEEPA JAINANI Lucknow, May 21

EVEN AS DEVELOPERS who had secured bids to install solar projects worth 184 MW in Uttar Pradesh New and Renewable Energy Development Agency's (UPNEDA) Phase-4 reverse auction in February 2020 keep waiting for it to issue LoIs to them and sign PPAs, more than 12 months since the auction date, the agency is in the process of writing back to them, stating that since the tariffs discovered in the auction were found to be significantly higher, the finance department had raised objections, resulting in bids getting lapsed.

This follows the National Solar Energy Federation of India (NSEFI), the umbrella organisation for solar energy stakeholders in India, writing a stinging letter to chief minister Yogi Adityanath last week, in which it had said that the delay has put a question mark over the viability of these projects, as input costs have risen sharply since. It had also stated that private players, which earlier had big plans to invest in the state, are now refraining from bidding for projects, considering the challenges being faced with respect to difficulty in statute clearances.

Talking to FE, an official of the energy department said, on condition of anonymity that the bid has since expired. "Every bid has a validity period and, in this case, it has expired without being renewed," he said, adding that the bids of ₹3.17/unit were allowed to lapse as they were deemed to be too expensive.

"Last week, UPNEDA has successfully concluded and has also awarded LoIs at historically lowest tariffs ever received in UP, of ₹2.68/unit and ₹2.69/unit for projects of 200 MW capacity. When we discover low tariffs, we work really fast. The older bids were allowed to lapse as otherwise consumers would have had to bear the burden of discovered tariffs, which were significantly higher at ₹3.17/unit. The decision is based on financial prudence," he said, adding that since UP discoms are such a bad shape, procuring expensive power would be suicidal. "As it is power procurement cost is the highest in UP when compared to all the other states," he said.

According to the official, for the last six-odd months, officials of UPNEDA did try to convince the finance department that the discovered tariff of ₹3.17/unit was the best solar tariff UP could get, but the finance department remained unconvinced and pointed out that some states such as Gujarat and Rajasthan had discovered tariffs below ₹2/unit.

Admitting that there has been a delay in informing the solar developers of the expiry, he said that it is primarily due to Covid-19, adding that they are in the process of issuing a letter informing the developers of the development in a few days.

Tarun Tejpal acquitted in sexual assault case after 7 yrs

PRESS TRUST OF INDIA Panaji, May 21

woman colleague accused him of sexual assault in the elevator of a luxury hotel in Goa, journalist Tarun Tejpal was acquitted of all charges by a sessions court in the state on Friday. Goa chief minister Pramod

SEVEN YEARS AFTER a

Sawant, however, said his government would file an appeal against the acquittal in the High Court as it was confident that there was evidence against the journalist.

While Tejpal, former editor-in-chief of the Tehelka magazine, said in a statement that he and his family had faced a "catastrophic fall-out" of "false allegations" for the past seven years and also faced the "boot of the state", the complainant woman's reaction was not available immediately.

The alleged incident had taken place on November 7, 2013. Tejpal stepped down as editor-in-chief of Tehelka in the wake of sexual assault allegations.

ICICI ICICI Prudential Asset Management Company Limited PRUDENTIAL TO Corporate Identity Number: U99999DL1993PLC054135 MUTUAL FUND

Registered Office: 12th Floor, Narain Manzil, 23, Barakhamba Road, New Delhi - 110 001. Corporate Office: One BKC, 13th Floor, Bandra Kurla Complex, Mumbai - 400 051. Tel.: +91 22 2652 5000, Fax: +91 22 2652 8100, Website: www.iciciprumf.com,

Email id: enquiry@icicipruamc.com

Highway, Goregaon (E), Mumbai - 400 063. Tel.: 022 2685 2000 Fax: 022 26868313

 1185 Days Plan M (the Scheme) Notice is hereby given that ICICI Prudential Trust Limited, Trustee to ICICI Prudential

Mutual Fund has approved the following distribution under Income Distribution cum capital withdrawal option (IDCW option) of the Scheme, subject to availability of distributable surplus on the record date i.e on May 27, 2021*:

Name of the Scheme/Plans	Quantum of IDCW (₹ per unit) (Face value of ₹ 10/- each)\$#	NAV as on May 20, 2021 (₹ Per unit)
ICICI Prudential Fixed Maturity Plan	n - Series 82 - 1185 Days Plan M	1
Quarterly IDCW	0.0500	12.6580
Direct Plan - Quarterly IDCW	0.0500	12.6753
Direct Plan - Half Yearly IDCW	0.0500	12.6752

- be lower depending upon the extent of distributable surplus available on the record date under the IDCW option of the Scheme.
- # Subject to deduction of applicable statutory levy, if any

The distribution with respect to IDCW will be done to all the unit holders/beneficial owners whose names appear in the register of unit holders/Statement of beneficial owners maintained by the Depositories, as applicable under the IDCW option of the Scheme, at the close of business hours on the record date.

It should be noted that pursuant to payment of IDCW, the NAV of the IDCW option of the Scheme would fall to the extent of payout and statutory levy (if applicable).

Suspension of trading of units of the Scheme:

The units of the Scheme are listed on BSE. The trading of units of the Scheme will be suspended on BSE with effect from closing hours of trading of May 23, 2021. The units of the Scheme will be available for trading on roll over.

For the purposes of redemption proceeds, the record date shall be May 27, 2021.

For ICICI Prudential Asset Management Company Limited Place: Mumbai Sd/-

Date: May 21, 2021

To know more, call 1800 222 999/1800 200 6666 or visit www.iciciprumf.com

BSE Disclaimer: It is to be distinctly understood that the permission given by BSE Limited should not in any way be deemed or construed that the Scheme Information Document (SID) has been cleared or approved by BSE nor does it certify the correctness or completeness of any of the contents of the SID. The investors are advised to refer to the SID for the full text of the Disclaimer clause of the BSE Limited. As part of the Go Green Initiative, investors are encouraged to register/update their e-mail id

and mobile number to support paper-less communications. To increase awareness about Mutual Funds, we regularly conduct Investor Awareness

Mutual Fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.

Ceinsys Tech Ltd

E-mail: cs@ ceinsys.com, Website: www.ceinsys.com

EXTRACT OF AUDITED STANDALONE FINANCIAL RESULTS FOR

Particulars	Quarter Ended on 31.03.2021	Quarter Ended on 31.12.2020	Quarter Ended on 31.03.2020	Financial year Ended on 31.03.2021	Financial year Ended on 31.03.2020
	Refer Note 5	Unaudited	Refer Note 5	Audited	Audited
Total Income from Operation	6,098.95	4,830.26	6,083.53	18,523.19	19,736.99
Net Profit for the period (before tax and Exceptional items)	83.45	533.47	803.30	320.85	3,364.35
Net Profit for the period before tax (after Exceptional items)	83.45	533.47	803.30	320.85	3,364.35
Net Profit for the period after tax (after Exceptional items)	91.20	434.40	564.87	276.64	2,507.56
Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit for the period (after Tax) and other Comprehensive Income (after Tax)]	95.43	431.87	562.09	273.28	2,497.43
Paid-up Equity Share Capital (Face Value of Rs. 10/- each)	1,111.71	1,111.71	1,111.71	1,111.71	1,111.71
Reserves excluding revaluation reserves	8			7,639.22	7,643.86
Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) 1. Basic (*Not Annualised): 2. Diluted (*Not Annualised):	0.82* 0.82*	3.91* 3.91*	5.08* 5.08*	2.49 2.49	22.56 22.56

EXTRACT OF AUDITED CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR

THE QUARTER AN	D YEAR END	ED ON 31S	T MARCH,	2021	(Rs. In Lakhs)
Particulars	Quarter Ended on 31.03.2021	Quarter Ended on 31.12.2020	Quarter Ended on 31.03.2020	Financial year Ended on 31.03.2021	Financial year Ended on 31.03.2020
	Refer Note 5	Unaudited	Refer Note 5	Audited	Audited
Total Income from Operation	6,098.95	4,830.26	6,083.53	18,523.19	19,738.00
Net Profit for the period (before tax and Exceptional items)	82.06	532.93	789.49	243.57	3,070.46
Net Profit for the period before tax (after Exceptional items)	82.06	532.93	789.49	243.57	3,070.46
Net Profit for the period after tax (after Exceptional items)	89.87	433.85	551.02	199.39	2,214.90
Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit for the period (after Tax) and other Comprehensive Income (after Tax)]	94.10	431.32	548.24	196.03	2,204.77
Paid-up Equity Share Capital (Face Value of Rs. 10/- each)	1,111.71	1,111.71	1,111.71	1,111.71	1,111.71
Reserves excluding revaluation reserves				7,801.83	7,883.72
Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) 1. Basic (*Not Annualised): 2. Diluted (*Not Annualised):	0.81* 0.81*	3.90* 3.90*	4.96* 4.96*	1.79 1.79	

NOTES:

- These Standalone and Consolidated Audited Financial Results of Ceinsys Tech Limited (the "Company") for the quarter and year ended March 31, 2021 (the "statement") were reviewed by Audit Committee and approved by the Board of Directors at their meeting held on May 21, 2021.
- 2. The outbreak of corona virus (COVID-19) pandemic globally and in India is causing significant disturbance and slowdown of economic activity. The Company's operations and revenue during the period were impacted due to COVID-19. The current "second wave" that has significantly increased the number of cases in India has led to suspension of operations and closure of certain project work due to regional / local restrictions in areas with significant number of COVID-19 cases. This unprecedented disruption continuous to impact the business and financial results. The Company has been taking various precautionary measures to protect its employees, customers and society at large, like control movement, maintaining social distancing, taking appropriate and stringent hygiene measures and following the directions of Government regulatory authorities. The Company believes that the Pandemic is not likely to impact the carrying value of its assets. The Company continues to closely monitor the development and possible effects that may result from the current pandemic, on its financial condition, liquidity and operations and it actively working to minimize the impact of this unprecedented situation. As the situation is continuously evolving, the eventual impact may be different from the estimates made as of date of approval of these standalone financial results.
- The chief operating decision maker (CODM) has identified following reportable segments of its business. a. Enterprise Geospatial & Engineering Services
- c. Power Generation

Place: Nagpur

Date : 21" May, 2021

- The Figures of the last quarter are the balancing figures between audited figures of the full financial year and the unaudited year to date figures upto the third quarter of the respective financial year.
- The above is an extract of the detailed format of Standalone and Consolidated results for the quarter and year ended on March 31, 2021 filed with stock exchange under Regulation 33 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of Standalone and Consolidated results for the guarter and year ended on March 31, 2021 are available on the website of Stock exchange (www.bseindia.com) and the Company's website (www.ceinsys.com).

For Ceinsys Tech Limited Rahul Joharapurkar Joint Managing Director

New Delhi Television Limited

CIN: L92111DL1988PLC033099 Regd. Off.: B 50-A, 2nd Floor, Archana Complex, Greater Kailash – I, New Delhi-110048 Phone: (91-11) 4157 7777, 2644 6666 | Fax: 2923 1740 E-mail:corporate@ndtv.com | Website: www.ndtv.com



Statement of Standalone and Consolidated Financial Results for the Quarter and Year Ended 31 March 2021

				(Rs. in La	khs except p	per share data)
1		Standalone	2		Consolidated	4
Particulars			Corresponding 3 months ended (31/03/2020) in the previous year	3 months ended (31/03/2021)	Current year ended (31/03/2021)	Corresponding 3 months ended (31/03/2020) in the previous year
	(Audited)	(Audited)	(Audited)	(Audited)	(Audited)	(Audited)
Total income from operations (net)	4,841	19,733	5,477	8,472	35,763	9,260
Net Profit/(Loss) for the period (before Tax, Exceptional and Extraordinary items)	1,773	3,799	752	2,999	8,630	1,036
Net Profit/(Loss) for the period before tax (after Exceptional and extraordinary items)	1,773	3,799	752	2,999	8,630	1,036
Net Profit/(Loss) for the period after tax (after Exceptional and extraordinary items)	1,773	3,799	752	2,611	7,090	801
Total Comprehensive Income for the period	1,784	3,786	710	2,639	7,093	750
Equity share capital	2,579	2,579	2,579	2,579	2,579	2,579
Other equity		25,962	27	15	12,588	
Earning Per Share (of Rs. 4/- each) (for continuing and discontinuing operations) Basic: Diluted:	2.75 2.75	5.89 5.89	1.17 1.17	4.05 4.05	11.00 11.00	1.24 1.24

Note: The above is an extract of the detailed format of Quarterly/Annual Financial Results filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly / Annual Financial Results are available on the Stock Exchange website (www.nseindia.com and www.bseindia.com), and on the Company's website, www.ndtv.com. For New Delhi Television Limited

Place : New Delhi Date: 20 May, 2021

Prannoy Roy Executive Co-Chairperson

accelya

ACCELYA SOLUTIONS INDIA LIMITED

CIN: L74140PN1986PLC041033

Regd. Off: "Accelya Enclave", 685/2B & 2C, 1st Floor, Sharada Arcade, Satara Road, Pune - 411037 Tel: +91 20 66083777 E mail: accelyaindia.investors@accelya.com Website: w3.accelya.com

NOTICE OF POSTAL BALLOT

NOTICE is hereby given, in accordance with Section 110 of the Companies Act, 2013 ('the Act') read with Rules 20 and 22 of the

Companies (Management and Administration) Rules, 2014 ('Rules') including any amendment(s) thereof, Regulation 44 of the

Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended ('Listing Regulations'), MCA General Circular Nos. 14/2020 dated April 8, 2020, 17/2020 dated April 13, 2020, 22/2020 dated June 15, 2020, 33/2020 dated September 28, 2020 and 39/2020 dated December 31, 2020 and SEBI circulars SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated 12 May 2020 and SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 dated 15 January 2021 (collectively referred to as 'Circulars') for seeking approval of the Members of Accelya Solutions India Limited (the "Company") by way of a Special Resolution for the following Special Business set out hereunder, through Postal Ballot by remote e-voting process.

S. No.	Type of Resolution	Particulars
1.		Approval for payment of remuneration payable to Ms. Neela Bhattacherjee – Managing Director which may exceed 5% of the estimated net profits of the Company to be calculated as per the provisions of section 198 of the Companies Act, 2013

2021, to the Members of the Company holding shares as on 14th May, 2021 ("Cut Off Date"). Voting rights shall be reckoned on the paid-up value of equity shares registered in the name of Members as on the Cut Off Date. A person who is not a Member on the Cut Off Date to treat this notice for information purposes only. In accordance with the Circulars, hard copy of the Postal Ballot Notice alongwith postal ballot forms and pre-paid business reply

In terms of the Circulars, the Company has e-mailed the Postal Ballot Notice alongwith Explanatory Statement on Friday, 21st May,

envelope will not be sent to the Members. The communication of the assent or dissent of the Members would take place through the remote e-voting system only.

The Company has engaged the services of KFin Technologies Private Limited, for providing e-voting facility to all its Members. The Notice of Postal Ballot can be downloaded from the Company's website at https://w3.accelya.com/accelya-solutions-india-

limited-notices or from the website of KFin Technologies Private Limited (KFin), (formerly Karvy Fintech Private Limited), at http://evoting.kfintech.com. The Notice is also displayed on the website of National Stock Exchange of India Limited (www.nseindia.com) and BSE Limited (www.bseindia.com), where the shares of the Company are listed.

Process for registration of email address-Postal Ballot

Those members who have not yet registered their email addresses are requested to get their email addresses registered with KFin, by following the procedure mentioned below:

- Visit the link https://ris.kfintech.com/clientservices/postalballot/
- Select the company name i.e. Accelya Solutions India Limited III. Select the Holding type from the drop down i.e. - NSDL/CDSL/Physical
- Enter DPID Client ID (in case shares are held in electronic form) / Physical Folio No. (in case shares are held in physical form)
- If PAN details are not available in the system, the system will prompt to upload a self-attested copy of the PAN card for updating records.
- VI. In case shares are held in physical form and PAN is not available in the records, please enter any one of the Share Certificate No. in respect of the shares held by you.
- VII. Enter the email address and mobile number.
- VIII. System will validate DP ID Client ID/ Physical Folio No. and PAN / Share certificate No., as the case may be, and send the OTP at the registered Mobile number as well as email address for validation.
- IX. Enter the OTPs received by SMS and email to complete the validation process. OTPs validity will be for 5 minutes only. The Notice and e-voting instructions along with the User ID and Password will be sent on the email address updated by the
- Alternatively, members may send an email request addressed to einward.ris@kfintech.com along with scanned copy of the request letter duly signed by the first shareholder, providing the email address, mobile number, self-attested copy of PAN and Client Master copy in case shares are held in electronic form or copy of the share certificate in case shares are held in physical form, to enable KFin to register their email address and to provide them the Notice and the e-voting instructions along with
- the User ID and Password. XII. Please note that in case the shares are held in electronic form, the above facility is only for temporary registration of email address for receipt of the Notice and the e-voting instructions along with the User ID and Password. Such members will have to register their email address with their DPs permanently, so that all communications are received by them in electronic form.

XIII. In case of queries, members are requested to write to einward.ris@kfintech.com or call at the toll free number 1800 309 4001 Those Members who have already registered their email addresses are requested to keep their email address validated with their Depository Participants / KFin to enable servicing of notices/documents/Annual Reports electronically.

If any Member who has registered their email address and not received Postal Ballot notice, User-Id and password for remote e-

voting, such Member may write to einward.ris@kfintech.com from their registered email address to receive the same.

Key Details regarding the Postal ballot /E-voting:

S. No.	Type of Resolution	Particulars
1	Link for e-voting	https://evoting.kfintech.com
		To understand the process of e-voting, Members are requested to go through notes to Postal Ballot Notice or refer the FAQs at https://evoting.kfintech.com/public/FAQ.aspx
2	Scrutinizer Details	Nilesh A. Pradhan & Co. LLP, Practicing Company Secretaries (FCS No. 5445 CP No. 3659)
3	Cut-off date for eligibility for e-voting	Friday, 14 th May, 2021
4	E-voting Period	- Commences from 9.00 a.m. (IST) on Saturday, 22 May, 2021 - Ends at 5.00 p.m. (IST) on Sunday, 20 June, 2021.
5	Last date for publishing results of the e-voting	Results of the voting will be declared by placing the same along with the Scrutinizer's report on the Company's website viz., https://w3.accelya.com/accelyasolutions-annual-general-meeting as well as on the website of KFin viz., https://evoting.kfintech.com and will also be communicated to the stock exchanges on or before 22 nd June, 2021.
6	In case of any grievances or queries, contact	Email ID: einward.ris@kfintech.com or call at the toll free number 1800 309 4001 or accelyaindia.investors@accelya.com

New Delhi

For Accelya Solutions India Limited Ninad Umranikar

Company Secretary

financialexp

Central Service Office: 2nd Floor, Block B-2, Nirlon Knowledge Park, Western Express

Notice to the Investors/Unit holders of ICICI Prudential Fixed Maturity Plan - Series 82

\$ The distribution will be subject to the availability of distributable surplus and may

or the immediately following Business Day, if that day is a Non-Business Day.

Authorised Signatory

Programs across the country. To know more about it, please visit https://www.iciciprumf.com or visit AMFI's website https://www.amfiindia.com

Ceinsys Tech Limited
Corporate Identity Number (CIN): L72300MH1998PLC114790
Registered Office: 10/5, I.T. Park, Nagpur - 440022 MH, India. Tel No.: 91 712 6782800

THE QUARTER AND YEAR ENDED ON 31ST MARCH, 2021

Particulars	Quarter Ended on 31.03.2021	Quarter Ended on 31.12.2020	Quarter Ended on 31.03.2020	Financial year Ended on 31.03.2021	Financial year Ended on 31.03.2020
	Refer Note 5	Unaudited	Refer Note 5	Audited	Audited
Total Income from Operation	6,098.95	4,830.26	6,083.53	18,523.19	19,738.00
Net Profit for the period (before tax and Exceptional items)	82.06	532.93	789.49	243.57	3,070.46
Net Profit for the period before tax (after Exceptional items)	82.06	532.93	789.49	243.57	3,070.46
Net Profit for the period after tax (after Exceptional items)	89.87	433.85	551.02	199.39	2,214.90
Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit for the period (after Tax) and other Comprehensive Income (after Tax)]	94.10	431.32	548.24	196.03	2,204.77
Paid-up Equity Share Capital (Face Value of Rs. 10/- each)	1,111.71	1,111.71	1,111.71	1,111.71	1,111.71
Reserves excluding revaluation reserves				7,801.83	7,883.72
Earnings Per Share (of Rs. 10/- each)	100			Ť	

- 3. The figures for the corresponding previous periods/year have been regrouped/rearranged wherever necessary, to make them
- b. Software Products

DIN: 08768899

Place: Pune

Date: 21.05.2021

दिल्ली में फिर बारिश के आसार, पारा सात डिग्री लुढ़का

बारिश के बाद राजपथ का एक दृश्य।

की सक्रियता की वजह से यह

बदलाव देखा गया है और इस

बारिश की वजह से ही लगातार

तापमान में गिरावट दर्ज की जा

रही है। पालम, लोधी रोड और

आयानगर में क्रमशः 5.8 मिमी.

3.2 मिमी और 10.6 मिमी बारिश

दर्ज की गई। दिल्ली में अधिकतम

तापमान 35 डिग्री के आसपास

रहने की संभावना है। लगातार

पश्चिमी विक्षोभ के कारण और

फिर चुकवाती तुफान 'ताउते' के

कारण उत्तर भारत में बारिश हुई।

में पश्चिमी विक्षोभ और चुकवाती

तफान 'ताउते' के कारण गरुवार

Date: 21/05/2021

2014 के नियम 30 (6) (ए) के मामले में

regalpolytechpytltd@gmail.com पर भेजें।

फार्म नं. आइएनसी-26

कंपनीज (इनकार्पोरेशन) नियमों, 2014 के

नियम 30 के अनवर्ती]

एक राज्य से अन्य राज्य में कंपनी के पंजीकत

कार्यालय के परिवर्तन का विज्ञापन

क्षेत्रीय निदेशक. उत्तरी क्षेत्र.

नई दिल्ली के समक्ष

कंपनीज (इनकार्पोरेशन) नियमों, 2014 के नियम

30 तथा कंपनीज अधिनियम, 2013 की धारा

13(4), कंपनीज अधिनियम, 2013 के विषय में।

मै. हाईकार्ब इंजीनियरिंग प्राईवेट लिमिटेड

(CIN: U29253UP2011PTC048070),

जिसका पंजीकृत कार्यालय एल-669, सैक्टर- 23,

संजय नगर, गाजियाबाद यूपी 201002 भारत के

सामान्य जनता को एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि

कंपनी ने अपना पंजीकृत कार्यालय एल-669, सैक्टर-

23, संजय नगर, गाजियाबाद यूपी 201002 भारत

से नं. 29/3बी1ए, हनुमेपल्ली अग्रहारम गांव,

बेगेपल्ली. सिपकॉट पोस्ट. होसर-635 126.

कृष्णागिरी जिला, तमिल नाड राज्य में बदलने के

लिए कंपनी को सक्षम बनाने के लिए 19 मई, 2021

को आयोजित कंपनी की असाधारण सामान्य बैठक में

पारित विशेष प्रस्ताव के अनुसार मेमोरंडम ऑफ

असोसीएशन के परिवर्तन की पुष्टि मांगने के लिए

कंपनीज अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अंतर्गत केंद्र

कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित परिवर्तन द्वारा

प्रभावित होने वाले कोई व्यक्ति, अपनी आपत्ति इस

सचना के प्रकाशन की तिथि से 14 दिनों के अन्दर

क्षेत्रीय निदेशक. बी-2 विंग, द्वितीय तल, पर्यावरण

भवन, सीजीओ कम्प्लैक्स, नई दिल्ली-110003 को

विरोध के कारण तथा हित की प्रकृति वर्णित करने वाले

शपथ-पत्र द्वारा समर्थित आपत्तियों को पंजीकत डाक

द्वारा या कारणों को भेजें या निवेशक शिकायत

प्रपत्र भरने द्वारा एमसीए-21 पोर्टल

(www.mca.gov.in) पर डिलीवर करने के साथ

याचिकाकर्ता की पति को कंपनी के ऊपर वर्णित

हाईकार्ब इंजीनियरिंग प्राईवेट लिमिटेड

बोर्ड के आदेशानुसार

Place : New Delhi

Date: 20 May, 2021

सरकार को आवेदन करना प्रस्तावित है।

तिथि: 21 मई, 2021

स्थानः दिल्ली

Place: Delhi

आइएमडी के अनुसार, दिल्ली

जनसत्ता सवाददाता नई दिल्ली, 21 मई।

बारिश व बादलों की आवाजाही से दिल्ली के तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। शुक्रवार को दिल्ली के अधिकतम व न्यूनतम तापमान में सात डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई। इस दौरान अधिकतम तापमान 33.1 डिग्री सेल्सियस व न्युनतम तापमान 19.4 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विभाग (आइएमडी) के मताबिक तीन मिलीमीटर बारिश भी दर्ज की गई है।

मौसम विभाग का अनुमान है कि शनिवार को भी दिल्ली में बारिश हो सकती है। इसके बाद मौसम में बदलाव आएगा और बादलों की आवाजाही भी बढेगी। दिल्ली में 25 मई को दिन के समय में तेज हवाएं चलने का पूर्वानुमान है और पारा भी 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास तक पहंच जाएगा।

एक ही दिन पहले दिल्ली में मौसम ने करवट ली थी और मौसम में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला था। इसी प्रकार शुक्रवार को भी दिन की शुरुआत को सुबह आठ बजे तक पिछले होता। शनिवार को भी ऐसा ही बारिश के साथ ही शुरू हुई। 24 घंटे में 119.3 मिमी बारिश पहले हल्की - हल्की बारिश और दर्ज की गई और इसके साथ मई बाद में कई इलाकों में तेज बारिश दर्ज की गई।

इस दौरान दिल्ली में 20 से 25 किलोमीटर प्रतिघंटा की रफ्तार से हवाएं चलीं। मौसम विभाग के मताबिक एकाएक पश्चिम विक्षोभ

रैम्सन्स प्रॉजेक्टस लिमिटेड CIN: L74899DL1994PLC063708 पंजी. कार्या.: 815, 8वाँ तल, हेमकुन्ट चैम्बर्स, 89, नेहरु प्लेस, नई दिल्ली-110019 Website: www.ramsonsprojects.com Email ID: corprelations@ramsonsprojects.com

सेबी (सूचीयन दायित्व तथा उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन 2015 के विनियमन 29 के साथ पठित विनियमन 47 के अनुपालन में एतदुद्वारा सुचित किया जाता है कि कम्पनी के निदेशक मंडल की बैठक गुरुवार, 27 मई, 2021 को कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय एसएएस टावर, सेक्टर-38, गुरुग्राम, हरियाणा-122001 में आयोजित की जायेगी जिसमें 31.3.2021 को समाप्त तिमाही तथा वर्ष के लिये कम्पनी के अंकेक्षित वित्तीय परिणामों पर विचार तथा अनुमोदन किया इस सचना में शामिल जानकारी कम्पनी की वेबसाईट

(www.ramsonsprojects.com तथा स्टॉक एक्सचैंज की वेबसाईट (www.besindia.com) पर भी उपलब्ध है।

रैम्सन्स प्रॉजेक्ट्स लिमिटेड के लिये मेघा गोयल स्थानः गुरुग्राम तिथि: 21.05.2021 कम्पनी सचिव

DR. M. INDUSCORP LIMITED Regd Office: 18-B/1, Ground Floor, Dev Nagar Tel.: +91-11-28716806

D.B. Gupta Road, Karol Bagh, New Delhi-110005. Website: www.dminduscorp.com

Email:.dmsoy@gmail.com CIN: L01119DL1986PLC023698 Pursuant to Regulation 29(a) read with regulation

47 (1) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements), Regulations, 2015, Notice is hereby given that Meeting of Board of Directors of the Company will be held on Thursday, 27th day of May, 2021 at 03:00 P.M. at its registered office, inter-alia, to consider and approve Audited Financial Results for the Quarter

In accordance with Code of Conduct to Regulate Monitor and Report Trading by Designated (Prohibition of Insider Trading) Regulations 2015, the Trading Window of the Company is already closed from 1st April, 2021 and shall reopen after Forty Eight hours from the conclusion of the Meeting of the Board of Directors.

The Notice may be accessed on the Company's website at http://www.drminduscorp.com and may also accessed on the Stock Exchange at http://

For DR. M. Induscorp Limited Place: New Delhi Prem Prakash (Managing Director)

🌑 एसआरयू स्टील्स लिमिटेड पंजीकृत कार्यालय: ए-48, पहली मंजिल, वजीरपुर औद्योगिक क्षेत्र, दिल्ली -110052 ्फोन: 011-27373622 ई-मेल: srusteels@yahoo.in वेवेबसाइट: www.srusteels.in

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि सेबी (सूचीयन दायित्व तथा उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के विनियमन 47 के साथ पठित विनियमन 29 के अनुपालन में कम्पनी के निदेशक मंडल की एक बैठक शुक्रवार, 28 मई, 2021 को ए-48, पहली मंजिल वजीरपुर इंडस्टियल एरिया, दिल्ली-110052 में कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय में आयोजित की जाएगी।

जिसमें निम्नलिखित लेन-देन व्यवसायों के लिए विचार - विमर्श किया जाएगा: क) 31 र्माच, 2021 को समाप्त तिमाही और वर्ष के लिए कंपनी के अंकेक्षित वित्तीय परिणामें को रिकॉर्ड अनुमोदन करने और

लेने के लिए।

ख) कुर्सी की अनुमति से काई अन्य उपरोक्त उद्देश्य के लिए और इनसाइडर टेडिंग

की रोकधाम के लिए कंपनी की आचार सहिता के संदर्भ में, टेडिंग विंडो के बंद होने के बारे में सूचना (यानि गुरुवार, 01 अप्रैल, 2021 से कंपनी की प्रतिभृतियों में सौदा करने के लिए अडतालीस (48) घंटे बोर्ड की बैठक की तारीख तक) स्टॉक एक्सचेंज को पहले ही प्रस्तुत किया जा चुका है।

उक्त सूचना कम्पनी की वेबसाइट www.srusteels.in तथा स्टॉक एक्सचेंज जैसे बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट www.bseindia.com पर भी उपलब्ध है।

एसआरय स्टील्स लिमिटेड

हस्ता./ शालू गर्ग साजी कंपनी सचिव एवं दिनांक: 22.05.2021 निदेशक अनपालन अधिकारी स्थानः गाजियाबाद DIN: 07838083

पंजीकत कार्यालय पर भेजनी है।



नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (एनडीएमसी) की शुक्रवार को हुई बैठक में कई महत्त्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इस बैठक की अध्यक्षेता दिल्ली के मुख्यमंत्री और पालिका परिषद के सदस्य अरविंद केजरीवाल ने की। बैठक में पालिका परिषद के प्रमख सदस्यों नई दिल्ली की सांसद मीनाक्षी लेखी और दिल्ली छावनी के विधायक एवं पालिका परिषद सदस्य वीरेंद्र सिंह कादियान, पालिका परिषद के अध्यक्ष धर्मेंद्र और सचिव बीएम मिश्रा ने भी भाग लिया।

बैठक में परिषद के समक्ष रखे गए 14 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इनमें पालिका परिषद क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति

विवरण

के लिए उपकरण बदलने, पालिका प्रसृति अस्पताल (पीएमएच) में आउटसोसिंग कर्मचारियों की फर्म से भर्ती, ई-कार्यालय का कार्यान्वयन, सहायक वाणिज्य अधिकारी (श्रेणी ए पद) के 04 पदों को जिन्हें 02 वर्ष से अधिक समय तक नियमित आधार पर न भरने के कारण समाप्त समझा गया, उनकी पुर्नस्थापना, अधीक्षक अभियंता (विद्युत) की 06 रिक्तियों एवं कार्यपालक अभियंता

(विद्युत) के 16 रिक्त पदों की पुनस्थापना पालिका परिषद क्षेत्र के लिए विद्युत आपूर्ति हेत् एचटी 11 केवी, 350 एमवीए व अन्य की खरीद. बीके दत्त कॉलोनी के प्रत्येक निवास को मीटर्ड पानी का कनेक्शन उपलब्ध कराना व अन्य जरूरी फैसले लिए गए।


इसके अलावा, पालिका परिषद के

31-03-2021 को

समाप्त लेखा वर्ष समाप्त लेखा वर्ष

(रू. लाखों में

31-03-2020 को



कर्मचारियों को नई दिल्ली के नागरिकों को बेहतर सेवा



डॉ. नरेन्द्र मोहन स्मृति सभा कवि, आलोचक, नाटककार, आत्मपरक साहित्य - शिल्पी

> दिन: रविवार, 23 मई, 2021 समय: शाम 5:00 बजे स्थान: जुम (Zoom App) ज़म ID: 852 8919 4165 पासवर्ड : 2021

कविता,आलोचना,नाटक,डायरी,आत्मकथा, संस्मरण, साक्षात्कार और पत्र संवाद के प्रयोगधर्मी हस्ताक्षर डॉ. नरेन्द्र मोहन की स्मृति में वैचारिक श्रद्धा सुमन अर्पण कार्यक्रम

निवेदक: सुमन पण्डित, अमित और ममता मोहन, मनीषा और विजय सारदा

तिमाही तिमाही (अंकेक्षित) (अंकेक्षित) (अंके क्षित) (अंके क्षित) 704.33 131.93 परिचालनों से कुल आय (शुद्ध) 644.91 सामान्य गतिविधियों से शुद्ध लाभ / (हानि) (कर, 6.32 (46.40)27.68 (3.81)विशिष्ट एवं / अथवा असाधारण मदों से पूर्व) कर से पूर्व शुद्ध लाभ/(हानि) (विशिष्ट एवं/अथवा 27.68 6.32 (3.81)(46.40)असाधारण मदों से बाद) 58.48 (46.40)कर के पश्चात अवधि के लिए शुद्ध लाम / (हानि) (3.81)37.12 अवधि हेत् कुल व्यापक आय 58.34 (3.81)(46.40)36.98 865.00 728.60 865.00 728.60 इक्विटी शेयर पूंजी (अंकित मृत्य 10 / - रू प्रति) रिजर्व (पिछले लेखा वर्ष की बैलेंस शीट के अनुसार 0.00 0.00 0.00 0.00 पुनर्मुल्योंकित रिजर्व को छोडकर) आय प्रति शेयर (रू. 10/- प्रति का) असाधारण मदों से पहले और बाद में 0.80* (0.05)*0.51 (0.64)- मूल और तरल (*गैर वार्षिक)

सूरज इण्डस्ट्रीज़ लिमिटेड

CIN: L26943HP1992PLC016791 पंजी. कार्याः: प्लॉट नं. 2, फेज ।।।, संसारपुर टैरेस, जिला-कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश-173212 कार्पोरेट कार्याः: एफ-32/3, प्रथम तल, ओखला इण्डिस्ट्रीयल एरिया, फेज-।।, नई दिल्ली- 110020

ई-मेलः secretarial@surajindustries.org; वेबसाइटः www.surajindustries.org फोन नंः 01970-256414

31 मार्च 2021 को समाप्त तिमाही एवं लेखा वर्ष के अंकेक्षित स्टैण्डअलोन वित्तीय परिणामों का सार

31-03-2020

को समाप्त

31-03-2021

में बारिश के सभी रिकॉर्ड ट्रट

गए। इससे पहले 24 मई 1976

को एक दिन में 60 मिमी बारिश

बारिश के बाद वायु

वाय गुणवत्ता में भी सुधार दर्ज

किया गया है। शुक्रवार को

भारतीय वाय गुणवत्ता सेवा

(सफर) के मुताबिक वायु

गुणवत्ता सूचकांक पर स्तर 79

दर्ज किया गया। यह संतोषजनक

रहा और इस स्थिति में सामान्य

जन के लिए कोई खतरा नहीं

स्तर बने रहने की संभावना है।

For SIRCA PAINTS INDIA LIMITED

Company Secretary & Compliance Officer

मै. रीगल पॉलीटेक प्राईवेट लिमिटेड के लिए

अजीत चन्द्रकान्त निकम

DIN: 08930328

Chahat Mahajan

SIRCA PAINTS INDIA LIMITED

CIN: L24219DL2006PLC145092

Regd & Corporate office: Plot No. 50, Phase-2, Badli,

Industrial Area, Delhi -110042/Tel: +91-11-42083083

Website: https://sircapaints.com/. Email: info@sircapaints.com

NOTICE

Pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of SEBI (Listing Obligation

and Disclosures Requirements), Regulation, 2015, Notice is hereby given that

the meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Friday, 28th

Day of May, 2021 at 03:00 P.M. to interalia, consider and approve Standalone and

Consolidated Audited Financial Results for quarter and year ended March 31, 2021

and Recommendation of final dividend, if any, for the financial year ended

For Further Details, Please visit the website of the Company

(www.sircapaints.com) and National Stock Exchange of India Ltd

(www.nseindia.com).

[कम्पनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 30 के अनुपालन में]

एक राज्य से दूसरे राज्य में कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय के परिवर्तन के लिये समाचार पत्र

में प्रकाशन के लिए विज्ञापन

क्षेत्रीय निदेशक. उत्तरी क्षेत्र. बी-2 विंग. 2रा तल. पर्यावरण भवन. सीजीओ कॉम्प्लैक्स. नर्ड

कंपनी अधिनियम, 2013, कंपनी अधिनियम, 2013) की धारा 13 (4) तथा कम्पनी (निगमन) नियमावली

मै. रीगल पॉलीटेक प्राईवेट लिमिटेड (CIN: U25201DL2011PTC214480) तथा जिसका

पंजीकृत कार्यालय है: हाउस नं. पीबीटी-39, ख.नं. 21/13/2, भूतल, गली नं. 29 बी, ब्लॉक-

एतदुद्वारा आम जनता को सुचित किया जाता है कि ''दिल्ली राज्य'' से '' महाराष्ट्र राज्य'' में उसके पंजीकृत

कार्यालय को परिवर्तित करने के लिए कंपनी को सक्षम बनाने के लिए 13 मई. 2021 को आयोजित

असाधारण आमसभा में पारित विशेष प्रस्ताव के अनुसार कंपनी के मेमोरैंडम ऑफ एसोसिएशन के परिवर्तन

की पष्टि के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अंतर्गत यह कंपनी केंद्र सरकार के पास आवेदन

कंपनी के पंजीकत कार्यालय के इस प्रस्तावित परिवर्तन से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता हो. वे

अपने हित की प्रकृति तथा आपत्ति के कारणों का उल्लेख करते हुए एक शपथ-पत्र द्वारा समर्थित अपनी

आपत्ति क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र बी-2 विंग, 2रा तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लैक्स, नई दिल्ली-

110003 में जमा करें या जमा कराएं या पंजीकत डाक से भेजें तथा साथ ही कम्पनी की ई-मेल:

बी, कौशिक एन्क्लेव, दिल्ली, उत्तर दिल्ली, डीएल-110084, के मामले में

बारिश के बाद दिल्ली की

गुणवत्ता भी सुधरी

दर्ज की गई थी।

1. 21.05.2021 को आयोजित बैठक में लेखा परिक्षा समिति द्वारा उपरोक्त परिणामों की समीक्षा की गई तथा बाद में 21.05.2021 के आयोजित बैठक में निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया गया।

2. ये परिणाम भारतीय लेखा मानक (इंड एस) के अनुसार कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के तहत निर्धारित प्रासंगिक नियमों कें तहत जारी किए गए नियमों के अनुसार तैयार किये गए है।

3. अंतिम तिमाही से संबंधित आंकड़े 01.04.2020 से 31.03.2021 तक की अवधि के ऑडिट किए गए आंकडों और 31.12.2020 तक के आंकडों को प्रकाशित करने वाले वर्ष के बीच संतलन वाले आंकडे हैं।

एक ही संगमेंट में संचालन के कारण इंड-एएस 18 से संबंधित सेगमेंट बाइस रिपोर्टिंग लाग नहीं होती है.

पिछले अवधियों के आंकड़ों को वर्तमान अवधि के लिए तुलनीय बनाने के लिए फिर से व्यवस्थित / पुन: व्यवस्थित किया गया है।

बोर्ड की आज्ञानुसार वास्ते सूरज इण्डस्ट्रीज लि0 स्थानः नई दिल्ली सरज प्रकाश गुप्ता, प्रबंध निदेशक दिनांकः 21 मई, 2021

पंजीकृत एवं कॉरपोरेट कार्यालय : येस बँक टॉवर, वन इन्टरनेशनल सेंटर, टॉवर 11, 15वां तल, सेनापति बापट मार्ग रलिफिस्टन (पश्चिम), मुम्बई ४०००१३, भारत, फोन: +91 (22) ३३६६९००० - फ्रैक्स: +91 (22) २४२१४५००.

मेल: communications@yesbank.in, वेबसाईट: www.yesbank.in : CIN: L65190MH2003PLC143249 सरफेसी अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के अंतर्गत प्रकाशन हेतू सूचना यह सचित किया जाता है कि निम्नलिखित ऋणीयों / जमानतदारी / बंधककर्ताओं जिन्होंने बैंक से प्राप्त ऋण सविधाओं के मलधन एवं ब्याज का भगतान करने में चक की है तथा जिनके खारे

को भारतीय रिजर्व बैंक की आस्तियों के वर्गीकरण हेतु मार्ग निर्देशिका के अनुसार उनके खाते के नियमित न होने के कारण गैर निष्पादित आस्तियों (एनपीए) के रूप में वर्गीकृत किया जा चुका है उनकों कित्तीय आस्तियों का प्रतिमतिकरण एवं पनर्गटन तथा प्रतिभति हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002 (सरफेसी अधिनियम) की धारा 13(2) के अंतर्गत उनके अंतिम बात पते पर नोटिस निर्गमित किये थे तथा उन्हें इस सार्वजनिक सूचना के माध्यम से सूचित किया जा रहा है। कल बकाया

ऋणी का नाम	जमानतदार(रॉ) एवं बंधककर्ता (ऑ) का नाम	बंधक अचल सम्पत्तियों का विवरण	13(2) सूचना की दिनांक	एनपीए की दिनांक
मैसर्स विहान एक्जीम्स कंपनी प्राईवेट लिमिटेड ('ऋणी और कंधककर्ता') जरिये इसके निदेशकों। पता - दुकान नं. 115-116, डी मॉल, नेताजी सुभाष प्लेस, पीतमपुरा, दिल्ली- 110034	1. श्री जितिन जैन पुत्र श्री विजय कुमार जैन ('निदेशक और जमानतदार'), पता - मकान नंबर - जेडपी-32, मौर्या एन्कलेव, पीतमपुरा, दिल्ली - 110034, यहां भी: दुकान नंबर 115-116, डी मॉल, नेताजी सुभाष प्लेस, पीतमपुरा, दिल्ली - 110034, 2. श्री विवेक जैन पुत्र श्री पवन जैन ('निदेशक और जमानतदार'), पता - मकान नंबर - जेडपी-32, मौर्या एन्क्लेव, पीतमपुरा, दिल्ली - 110034, यहां भी: दुकान संख्या 115-116, डी मॉल, नेताजी सुभाष प्लेस, पीतमपुरा, दिल्ली - 110034, 3. श्री विजय कुमार जैन पुत्र श्री पूरण चंद जैन ('जमानतदार'), पता - मकान नंबर - जेडपी-32, मौर्या एन्क्लेव, पीतमपुरा, दिल्ली - 110034, 4. श्री अंकुर जैन पुत्र विजय कुमार जैन ('जमानतदार'), पता - मकान नंबर - जेडपी-32, मौर्या एन्क्लेव, पीतमपुरा, दिल्ली - 110034, 5. श्रीमती कमलेश जैन पुत्री श्री दयाराम जिंदल ('बंधककर्ता और जमानतदार'), पता - मकान नंबर - जेडपी-32, मौर्या एन्क्लेव, पीतमपुरा, दिल्ली - 110034, 6. श्रीमती सुलोचना जैन पत्री श्री विवयराम जैन ('बंधककर्ता और जमानतदार') पता - मकान नंबर - जेडपी-32, मौर्या एन्क्लेव, पीतमपुरा, दिल्ली - 110034, 6. श्रीमती सुलोचना जैन पत्री श्री विवयराम जैन पत्री श्री व्यवराम जैन पत्री श्री व्यवराम जैन पत्री श्री विवयराम जैन पत्री श्री व्यवराम जैन पत्री श्री विवयराम जैन पत्री श्री विवयराम जैन पत्री श्री व्यवराम जैन पत्री श्री व्यवराम जैन पत्री श्री विवयराम	एवं कमलेश जैन, आवासीय र	सम्पत्ति नं. जेड़प् सवासीय स्कीम लान, दिल्ली में ोड़ 9 मीटर, पाँ क्ककर्ता- मैससं त/यूनिट नं. 115 का क्षेत्रफल 29 तरपुर जिला केन्ट्र में स्थित। 3. बं वेट लिमिटेड, र माँल में कबई ए ए-1 पर निर्मित	ति/32, क्षेत्रफल वर्तमान में मौद्यां स्थित। सीमाएं:- श्यम- एनॉट नं. विद्वान एक्जीम्स ६, प्रथम तल पर, १2.10 वर्गफीट, १, नेताजी सुभाव धककर्ता- मैसर्स कान/यूनिट नं. रेया का क्षेत्रफल , वजिरपुर जिला

एवं कमलेश जैन, आवासीय सम्पत्ति नं. जेडपी/32, क्षेत्रफल 7,21,17,073/ 162 वर्गमीटर जो पीतमपुरा आवासीय स्कीम वर्तमान में मौयां (रूपये सन्नत एन्क्लेव से ज्ञात के लेआउट प्लान, दिल्ली में स्थित। सीमाएं:- करोड उक्कीस उत्तर- सर्विस लेन, दक्षिण- रोड 9 मीटर, पश्चिम- प्लॉट नं. लाख संत्रह 33, पूर्व- सर्विस लेन। 2. बंधककर्ता- मैससं विहान एक्जीम्स हजार नेहत्तर कंपनी प्राइंबेट लिमिटेड, दकान/युनिट नं. 115, प्रथम तल पर, मात्र) दिनांक उक्त डी मॉल में कवर्ड एरिया का क्षेत्रफल 292.10 वर्गफीट, 1 अप्रैल. प्लॉट नं. ए- 1 पर निर्मित, वजिरपुर जिला केन्द्र, नेताजी सुभाष 2021 तक पेलेस, पीतमपुरा, नई दिल्ली में स्थित। 3. बंधककर्ता- मैससं विहान एक्जीम्स कंपनी प्राईवेट लिमिटेड, दकान/यूनिट नं. 116, प्रथम तल पर, उक्त डी मॉल में कवर्ड एरिया का क्षेत्रफल 292.10 वर्गफीट, प्लॉट नं. ए-1 पर निर्मित, वजिरपर जिला केन्द्र, नेताजी सुभाष पेलेस, पीतमपुरा, नई दिल्ली में स्थित। REF No. YBL/ENF/DEL/RN/2021-22/196

नंबर- जेडपी-32, मीर्चा एन्क्लेब, पीतमपुरा, दिल्ली - 110034 . मैसर्स स्टार पेट 1. श्री जसविंदर सिंह ('बंधक और जमानतदार'), पता:- 1, बंधककर्ता- मैसर्स स्टार पेट टेडिंग प्राईवेट 15.05.2021 21.06.2020 एस -21, द्वितीय तल, ग्रेटर केलाश -2, दिल्ली - लिपिटेड जरिये इसके प्राधिकत हस्ताक्षरी श्री जसविंदर गुरचरण सिंह (स्वामी), 20,58,38,424/ लिमिटेड ('ऋणी और वंधककर्ता') जरिये इसके ('जमानतदार'), पता: - एस -21, ड्रितीय तल, प्रेटर निदेशकों। कैलाश -2, दिल्ली -110048, 3. श्रीमती ईशा सिंह द्वितीय तल, ग्रेटर ग्रेटर कॅलाश -2, दिल्ली -110048, यहां भी:- ए-2/22, मोती नगर, नई दिल्ली- 110015, 4. श्रीमती अमरजीत कौर जॉली ('जमानतदार'), पता:- ए-2/22, मोती नगर, नई दिल्ली- 110015, 5. श्री जगमोहन सिंह

द्वितीय तल, ग्रेटर कैलाश-2, दिल्ली-110048

गली नंबर 2, शकरपुर, दिल्ली- 110092, 4. श्रीमती शांति देवी ('निदेशक और

जमानतदार'), पता - डब्ल्युबी- १९, गली नंबर २, शकरपुर, दिल्ली - 110092

110048. यहां भी - युनिट नंबर 301, तृतीय तल, गेरा का सामात्ति के सभी अभिन्न अंग गठित होते हैं जिसमें तृतीय तल पर युनिट नं. 301, इम्पेरियम ग्रीन, नियोगी नगर पणजी, तिस्वाडी तालुका, चार्जेबल बिल्ट अप परिया 123.63 वर्गमीटर, गेरा के इम्पेरियम ग्रीन में एक करोड़ अठावन उत्तरी गोखा - 403001, 2. श्रीमती हस्नीत कौर बेसमेंट कार पार्क के उपयोग के विशेष अधिकारों के साथ/बिना, उक्त प्लॉट में अविभाजित हिस्से के साथ जो पणजी शहर के भीतर, तिस्वाडी तालुका, उत्तरी गोवा- 403001 में स्थित। विक्रय विलेख दिनांक 16.09.2016 में विस्तृत ('बंधक और जमानतदार'), पता - एस -21, द्वितीय तल, वर्णित। **2.** बंधककर्ता- मैसर्स ग्रूम प्रोपर्टीज प्राईवेट लिमिटेड जस्यि इसके निदेशकों चौबीस मात्र) श्रीमती अमरजीत कौर (स्वामी), सम्पूर्ण द्वितीय तल हिस्सा (पूर्ण छत अधिकारों) सहित) भूषि के प्लॉट नं. 21 पर दो सर्वेट क्वार्टर्स निर्मित सहित, ब्लॉक-एस, क्षेत्रफल 300 वर्गगत जो ग्रेटर केलाश, पार्ट-।।, नई दिल्ली- 110048 में जॉली ('जमानतदार'), पता:- ए-2/22, मोती नगर, नई स्थित, नीचे की भूमि में अविभाज्य क्री होल्ड अधिकारों पर अविभाजित 25% के दिल्ली- 110015, 6. मेससं ग्रुम प्रॉपर्टीज प्राईबेट लिमिटेड साथ (विक्रय विलेख 27.06.2003 के अनुसार), सीमाएं:- उतार- प्लॉट नं.

('बंधककर्ता') जरिये इसके निदेशकों, पता:- एस-21, एस-19, पश्चिम- सर्विस लेन, दक्षिण- प्लॉट ने. एस-23, पूर्व- रोड। श्रीमती किरण होल्कर ('बंधककर्ता और जमानतदार'), पता - डब्ल्यू बी -19, 1, बंधककर्ता - 17.05.2021 30.09.2020 गली नंबर 2, शकरपुर, दिल्ली - 110092, वहां भी: - फ्लैट नंबर 289, तीसरी श्लीमती किरण होल्कर (स्वामी), डीडीए बिल्ट मंजिल, डीडीए एलआईजी टाइप, पॉकेट -5 , मयूर विहार फेज -1, दिल्ली - एलआईजी फ्री होल्ड फ्लैट नं. 289, तृतीय तल 110092, 2. श्री पंकज कुमार होल्कर ('निदेशक और जमानतदार'), पता - पर, डीडीए एलआईजी टाईप, पॉकेट-5, मयुर विहार डब्ल्यूबी-19, गली नंबर 2, शकल्पुर, दिल्ली - 110092, 3. श्री रामपाल होल्कर फेज-1, दिल्ली- 110092 में स्थित, सम्पत्ति का 'निदेशक और जमानतदार') जस्यि इनके कानूनी वास्सिं, पता- डब्ल्यू बी - 19, क्षेत्रफल 65 वर्गमीटर।

1,09,28,062/-रूपये एक करो नो लाख अठाईस हजार बासठ मात्र दिनांक 30

अप्रैल, 2021

उपर्युक्त ऋणियों तथा उनके प्रतिनिधियों/जमानतदारों/बंधककर्ताओं (जो भी लागू होते हैं) से बकाया राशि का इस सूचना के प्रकाशन की दिनांक से 60 दिवस के भीतर भूगतान करने की मांग की जाती है जिसमें चुक होने पर 60 दिनों के उपरान्त सरफेसी अधिनियम की धारा 13 उपधारा (4) के अंतर्गत कदम उटाये जायेंगे हस्ताक्षर/- (प्राधिकत अधिकारी) वास्ते येस बैंक लिमिटेड

New Delhi Television Limited

प्रोफोर्स प्राईवेट

जरिये इसके

निदेशकों।

लिमिटेड ('ऋणी'

पता - डब्ल्यू बी-

19, गली नं. 2,

शकरपुर, दिल्ली-

दिनांकः 22.05.2021

CIN: L92111DL1988PLC033099 Regd. Off.: B 50-A, 2nd Floor, Archana Complex, Greater Kailash - I, New Delhi-110048 Phone: (91-11) 4157 7777, 2644 6666 | Fax: 2923 1740 E-mail:corporate@ndtv.com | Website: www.ndtv.com



Statement of Standalone and Consolidated Financial Results for the Quarter and Year Ended 31 March 2021

(Rs. in Lakhs except per share data) Consolidated Standalone 3 months Current year Corresponding Current year Corresponding 3 months ended ended 3 months ended ended ended 3 months ended (31/03/2021) **Particulars** (31/03/2021) (31/03/2021) (31/03/2020) in (31/03/2021) (31/03/2020) in the previous the previous year year (Audited) (Audited) (Audited) (Audited) (Audited) (Audited) Total income from operations 4,841 19,733 5,477 8,472 35,763 9,260 Net Profit/(Loss) for the period 1,773 3,799 752 2.999 8.630 1,036 (before Tax, Exceptional and Extraordinary items) Net Profit/(Loss) for the period 1,773 752 2,999 8,630 3,799 1,036 before tax (after Exceptional and extraordinary items) Net Profit/(Loss) for the period 1,773 3,799 752 2,611 7,090 801 after tax (after Exceptional and extraordinary items) Total Comprehensive Income 1.784 3,786 710 2,639 7,093 750 for the period 2,579 2,579 2,579 2,579 2,579 2,579 Equity share capital 12,588 Other equity 25,962 Earning Per Share (of Rs. 4/each) (for continuing and discontinuing operations) 2.75 5.89 1.17 4.05 11.00 Basic: 1.24 Diluted: 2.75 1.17 11.00 1.24

Note: The above is an extract of the detailed format of Quarterly/Annual Financial Results filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly / Annual Financial Results are available on the Stock Exchange website (www.nseindia.com and www.bseindia.com), and on the Company's website, www.ndtv.com.

For New Delhi Television Limited **Prannoy Roy Executive Co-Chairperson**

ऋण वसूली न्यायाधिकरण-॥।, चंडीगढ़ एससीओ नं. 33-34-35, सेक्टर 17-ए, चंडीगढ़

आर.सी. नं. 904/2019

पंजाब नेशनल बैंक

वनाम

कराध ह्रणणम्प्र धारक

मै. मालवा कॉटन स्पिनिंग मिल्स प्रमाणपत्र ऋणधारक प्रकाशन सुचना

(आरडीडीबी व एफआई अधिनियम, 1993 की धारा 25 से 28 के साथ पितत आयकर अधिनियम, 1961 की द्वितीय सारणी के नियम 2 के अधीन सुचना) सेवा में.

 मै. मालवा कॉटन रिपनिंग मिल्स लि. को इसके वैयरमेन तथा प्रबंध निदेशक जंगी औसवाल, ८८, इंडस्ट्रियल एरिया-ए, लुधियाना के माध्यम से। कर्जदार

 जंगी लाल ओसवाल सुपुत्र स्व. विद्या सागर, वैयरमेन तथा प्रबंध निदेशक मै. मालवा कॉटन स्पिनिंग मिल्स लि., निवासी बी-XIX-85/4, वलब रोड, सिविल लाईस, लुघियाना। दूसरा पता: बी-83, दि माल, लुधियाना। गारंटर

 ऋषि ओसवाल सुपुत्र जंगी लाल निदेशक, मै. मालवा कॉटन स्थिनिंग मिल्स लि... निवासी बी-XIX-85/4 वलब रोड, सिविल लाईस, लुचियाना। दूसरा पता: बी-83, दि माल, लुधियाना। गारंटर

 राहुल ओसवाल सुपुत्र जंगी लाल ओसवाल, निदेशक, मै. मालवा कॉटन स्पिनिंग मिल्स लि. निवासी बी-XIX-85/4 वलब रोड, सिविल लाईस, लुधियाना।

 मै. अपार व्यापार लिमिटेड, पंजी. कार्यालय: 8-बी, रोयड स्टीट, कमरा नं. 6, प्रथम तल, कोलकाता को इसके प्रबंध निदेशक/निदेशके के माध्यम से। मै. बहामृत्या फाइनेंस लिमिटेड, पंजी. कार्यालय ए-15, श्रीनगर कॉलोनी, भारत नगर

रोड, दिल्ली-110052 को इसके प्रबंध निदेशक/निदेशक के माध्यम से। 7. मै. क्राऊज इंवेस्टमेंट लि., पंजी. कार्यालय 708-709, रहेजा चैम्बर्स, 213, नरीमन प्वाईट, मुम्बई को इसके प्रबंध निदेशक/ निदेशक के माध्यम से।

 मै. एक्सीलेंट प्रिंटर्स प्राईवेट लि., पंजी. कार्यालय ए-15, श्रीनगर कॉलोनी, भारत नगर रोड, दिल्ली-110052 को इसके प्रबंध निदेशक/निदेशक के माध्यम से।

मै. फयेट ट्रैडिंग एंड इंवेस्टमेंट कॉ. लि., पंजी. कार्यालय 708-709, रहेजा चैम्बर्स, 213,

नरीमन प्वाईट, मुम्बई को इसके प्रबंध निदेशक/ निदेशक के माध्यम से। 10.मै. गार्डन इंवेस्टमेंट लि., पंजी. कार्यालय ए-15, श्रीनगर कॉलोनी, भारत नगर रोड,

दिल्ली-110052 को इसके प्रबंध निदेशक/निदेशक के माध्यम से। 11. मै. ग्लोरी होल्डिंग लिमिटेड, पंजी. कार्यालय ए-15, श्रीनगर कॉलोनी, भारत नगर रोड,

दिल्ली-110052 को इसके प्रबंध निदेशक/निदेशक के माध्यम से।

12 . मै . जगदम्बा केमिकल प्राईवेट लिमिटेड, पंजी . कार्यालय ए-15, श्रीनगर कॉलोनी, भारत नगर रोह, दिल्ली-110052 को इसके प्रबंध निदेशक/निदेशक के माध्यम से। मै. कमल होल्डिंग कॉं, पंजी. कार्यालय ए-15, श्रीनगर कॉलोनी, भारत नगर रोड,

दिल्ली-110052 को इसके प्रबंध निदेशक/निदेशक के माध्यम से। मै. मालवा कैपिटल एंड फाइनेंस लिमिटेड, पंजी, कार्यालय: 230, ओसवाल रोड.

इंडस्ट्रीयल एरिया-ए, लुधियाना को इसके प्रबंध निदेशक/निदेशक के माध्यम से। 15 . मै . नार्थ इंडिया कार्पेट कॉ प्राइवेट लिमिटेड, पंजी . कार्यालय ए-15, श्रीनगर कालोनी

भारत नगर रोड, दिल्ली-110052 को इसके प्रबंध निदेशक/निदेशक के माध्यम से। 16.मै. ओसवेगो ट्रैडिंग एंड इंवेस्टमेंट कॉ. लिमिटेड, पंजी. कार्यालय: 708-709, रहेजा चैंबर्स, २१३, नरीमन प्वाइंट, मुंबई को इसके प्रबंध निदेशक/निदेशक के माध्यम से।

17 . मै . ओसवाल इंटरमेडिएटिड प्रा . लि ., पंजी . कार्यालय : ए-15, श्रीनगर कालोनी, भारत नगर रोड, दिल्ली-110052 को इसके प्रबंध निदेशक/निदेशक के माध्यम से।

18 . मै . ओसवाल फाइबर्स प्राइवेट लिमिटेड, पंजी , कार्यालय : ए-15, श्रीनगर कालोनी, भारत नगर रोह, दिल्ली-110052 को इसके प्रबंध निदेशक/निदेशक के माध्यम से।

19.मै. प्रहेशियल कॉमर्शियल एंटरप्राइजेज लिमिटेड, पंजी, कार्यालय: ए-15, श्रीनगर कालोनी, भारत नगर रोड, दिल्ली-110052 को इसके प्रबंध निदेशक/निदेशक

के माध्यम से। 20. मै. पिलर इंवेस्टमेंट कॉ. प्रा. लि. पंजी. कार्यालय: ए-15 श्रीनगर कालोनी, भारत नगर रोड, दिल्ली-110052 को इसके प्रबंध निदेशक/निदेशक के माध्यम से।

21. मैं, विजय वल्लभ होल्डिंग लिमिटेड, पंजी, कार्यालय: 708-709, रहेजा चैंबर्स, 213, नरीमन प्वाइंट, मुंबई को इसके प्रबंध निदेशक/निदेशक के माध्यम से।

22. मै. स्वर्णिम ट्रैंड उद्योग लि. पंजी. कार्यालय:8-बी, रोयड स्ट्रीट, कमरा नं. 6, प्रथम तल, कौलकाता को इसके प्रबंध निदेशक/निदेशके के माध्यम से।

23. मै. वज इंवेस्टमेंट एंड ट्रैडिंग कॉ. लि., पंजी. कार्यालय: 87/158, आचार्य नगर, जी.टी. रोड, कानपुर को इसके प्रबंध निदेशक/निदेशक के माध्यम से।

24 . मै . जंगी ग्रोथ फंड प्रा . लि ., पंजी . कार्यालय : ए-15, श्रीनगर कालोनी, भारत नगर रोड, दिल्ली-110052 को इसके प्रबंध निदेशक/निदेशक के माध्यम से।

25.मै. नीलम ग्रोथ फंड प्राइवेट लिमिटेड, पंजी. कार्यालय: ए-15, श्रीनगर कालोनी, भारत नगर रोड, दिल्ली-110052 को इसके प्रबंध निदेशक/निदेशक के माध्यम से।

26. मै. नाग देवी ग्रोथ फंड प्रा. लि., पंजी. कार्यालयः ए-15, श्रीनगर कालोनी, भारत नगर

रोड, दिल्ली-110052 को इसके प्रबंध निदेशक/निदेशक के माध्यम से। 27 . मै . ऋषि ग्रोथ फंड प्रा . लि .. पंजी . कार्यालय : ए- 15, श्रीनगर कालोनी, भारत नगर रोड,

दिल्ली-110052 को इसके प्रबंध निदेशक/निदेशक के माध्यम से।

28. मैं, वी.एस. ग्रोथ फंड प्रा. लि., पंजी. कार्यालय: ए-15, श्रीनगर कालोनी, भारत नगर

रोड, दिल्ली-110052 को इसके प्रबंध निदेशक/निदेशक के माध्यम से। प्रतिवादी नं. 5 से 28 तक शेयर्स के गिरवीदार है।

माननीय पीठासीन अधिकारी द्वारा जारी औए नं. 2017 का 5127 में वसुली प्रमाणपत्र के

अनुसार आप से 260,54,58,222,00 रुपए की राशि बकाया है। चूंकि, यह न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप दर्शाया गया है कि आपको सामान्य तरीके से तामील नहीं कराया जा सकता, इसलिए इस प्रकाशन द्वारा दी गई इस सूचना के माध्यम से आपको

दिनांक 22.06.2021 को पूर्वोह्न 11.00 बजे इस न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया जाता है। ध्यान रहें कि निर्दिष्ट दिन व समय पर आपकी उपस्थिति में चूक होने पर, मामले की सुनवाई

तथा निर्णय आपकी अनुपरिथति में कर दिया जाएगा। मेरें हस्ताक्षर व इस न्यायालय की मृहर के अधीन 13 मई, 2021 को चंडीगढ़ में जारी किया गया।

> वसूली अधिकारी-॥, डीआरटी-III, चंडीगढ़।

www.readwhere.com

स्थानः नई विल्ली

दिनांक: 21 मई, 2021